



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1492]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 24, 2017/ज्ये"B 3, 1939

No. 1492]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 24, 2017/JYAISTHA 3, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2017

का.आ. 1685(अ).—केंद्र सरकार, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38क और 38ख की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 19 मई, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1397 (ई) का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले इसके संबंध में कही गई या कहने से छोड़ी गई बातों के सिवाय एतद्द्वारा केंद्रीय चिड़िया-घर प्राधिकरण का पुनर्गठन करती है और निम्नलिखित सदस्यों की नियुक्ति करती है अर्थात:-

1. मंत्री —अध्यक्ष
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार
नई दिल्ली
2. सचिव, भारत सरकार —सदस्य
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली
3. वन महानिदेशक और विशेष सचिव —सदस्य
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली

- | | |
|--|-------------|
| 4. अपर वन महानिदेशक
(वन्यजीव)
एवं निदेशक, वन्यजीव संरक्षण,
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली | —सदस्य |
| 5. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली | —सदस्य |
| 6. निदेशक
भारतीय वन्यजीव संस्थान,
देहरादून, उत्तराखंड | —सदस्य |
| 7. निदेशक
भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान,
बरेली, उत्तर प्रदेश | —सदस्य |
| 8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
वर्ल्ड-वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया,
नई दिल्ली | —सदस्य |
| 9. अभिलाष खांडेकर
वरिष्ठ पत्रकार,
1/8 आईएनएस बिल्डिंग,
रफी मार्ग,
नई दिल्ली-110001 | —सदस्य |
| 10. सी.एस. यलक्की,
भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त),
मकान नं. 1604
ई एंड एफ ब्लॉक,
रामकृष्ण नगर,
मैसूर-570023
कर्नाटक | —सदस्य |
| 11. भारत पाठक
भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त) (1984),
प्लॉट नं. 64,
स्माल शार्पिंग सेंटर के पास,
गांधी नगर- 382007
गुजरात | —सदस्य |
| 12. सदस्य सचिव
केन्द्रीय चिड़िया प्राधिकरण,
नई दिल्ली | —सदस्य सचिव |

विचारार्थ विषय :- केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण उपर्युक्त अधिनियम के तहत उसे सौंपा गया कार्य करेगा।

टिप्पणी :- अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए होगा।

[फा. सं. 5-3/2017-डब्ल्यूएल]

सौमित्रा दासगुप्ता, वन महानिरीक्षक (वन्यजीव)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2017

S.O. 1685(E).— In exercise of the powers conferred by section 38A and sub-section (1) of section 38B of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change number S.O. 1397(E), dated the 19th May, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby re-constitutes the Central Zoo Authority and appoints the following members, namely:-

- | | |
|---|--------------|
| 1. Minister
Ministry of Environment, Forests and Climate Change,
Government of India
New Delhi | —Chairperson |
| 2. Secretary to the Government of India
Ministry of Environment, Forests and Climate Change,
Government of India, New Delhi | —Member |
| 3. Director General of Forests and
Special Secretary
Ministry of Environment, Forests and Climate Change,
Government of India, New Delhi | —Member |
| 4. Additional Director General of Forests
(Wildlife)
and Director, Wildlife Preservation,
Ministry of Environment, Forests and Climate Change,
Government of India, New Delhi | —Member |
| 5. Additional Secretary and
Financial Advisor,
Ministry of Environment, Forests and Climate Change,
Government of India, New Delhi | —Member |

-
- | | | |
|-----|--|-------------------|
| 6. | Director
Wildlife Institute of India,
Dehradun, Uttarakhand | —Member |
| 7. | Director
Indian Veterinary Research Institute,
Bareilly, Uttar Pradesh | —Member |
| 8. | The Chief Executive Officer
World Wide Fund for Nature India,
New Delhi | —Member |
| 9. | Abhilash Khandekar
Senior Journalist
1/8 INS Building,
Rafi Marg
New Delhi-110001 | —Member |
| 10. | C. S. Yalakki
IFS Retd.
House No. 1604
E&F Block
Ramakrishna Nagar
Mysore-570023
Karnataka | —Member |
| 11. | Bharat Pathak
Retd. IFS (1984)
Plot No. 64,
Near Small Shopping Center
Gandhinagar 382007
Gujarat | —Member |
| 12. | Member Secretary
Central Zoo Authority,
New Delhi | —Member Secretary |

Terms of Reference:- The Central Zoo Authority shall perform the functions assigned to it under the said Act.

Note: The term of office of the Chairperson and Members shall be for a period of three years with effect from the date of publication of this notification.

[F. No. 5-3/2017-WL]

SOUMITRA DASGUPTA, Inspector General of Forests (WL)